



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2016/फाल्गुन 5, 1937

No. 124]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2016/ PHALGUNA 5, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 192 (अ).—केंद्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों को एक रुपया के करेंसी नोट का मुद्रण नियम, 2016 कहा जाए।
(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **मुद्रण:-** एक रुपया के करेंसी नोट, परिचालन के लिए भारत सरकार के प्राधिकार से जारी करने के लिए नोट मुद्रणालयों में मुद्रित किए जाएंगे।
3. **एक रुपया के करेंसी नोट की विमाण और संरचना:-** एक रुपया के करेंसी नोट, नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट विमाणों और संरचनाओं के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सारणी

नोट का अंकित मूल्य	आकृति और आकार	कागज संरचना
(1)	(2)	(3)
एक रुपया का करेंसी नोट	आयताकार 9.7x6.3 सें.मी.	100 प्रतिशत (काटन) रेग कंटे
		कागज का भार:- 90 जीएसएम (ग्राम प्रति वर्ग मीटर)
		कागज की मोटाई:- 110 माइक्रोस
		मल्टीटोनल वाटरमार्क्स:- (i) 'सत्यमेव जयते' शब्दों के बगैर पटल में अशोक स्तंभ। (ii) मध्य भाग में अप्रकट संख्या '1' (iii) दायीं ओर ऊर्ध्वतः अप्रकट शब्द 'भारत' क्रमांकित होगा।

4. डिजाइन:- एक रुपए के करेंसी नोटों का डिजाइन निम्नानुसार होगा:-

- (1) **अग्रभाग-** (क) इस भाग में श्री रतन पी. वातल, वित्त सचिव के द्विभाषीय हस्ताक्षर के साथ 'Government of India' शब्दों के ऊपर "भारत सरकार" शब्द और 2016 के "₹" प्रतीक के साथ नए एक रुपया के सिक्के की प्रतिकृति और संख्या पैनल में बड़े अक्षर में 'L' अंतर्विष्ट होगा।
- (ख) नोट के निचले भाग में दायीं ओर संख्यांकन काला होगा।
- (2) **पृष्ठभाग-** इस भाग में पुष्प डिजाइन वाले "₹" प्रतीक के साथ एक रुपया के सिक्के के चित्रण पर वर्ष 2016 के साथ 'Government of India' शब्दों के ऊपर "भारत सरकार" शब्द अंतर्विष्ट होंगे और इसके चारों ओर के डिजाइन में तेल खोज प्लेटफार्म, 'सागर सम्राट' का चित्र और साथ ही भाषा पैनल में पंद्रह भारतीय भाषाओं में प्राधिकृत प्रतिदान मूल्य के साथ नीचे की ओर बीच में अंतरराष्ट्रीय संख्या में वर्ष संख्या अंतर्विष्ट होगी।
- (3) **संपूर्ण रंग योजना-** एक रुपया के करेंसी नोट का रंग अग्रभाग में प्रचुरतया गुलाबी हरा और पृष्ठभाग में अन्य रंगों का संयोजन होगा।

(5) **मानक भार और अनुज्ञात उपचार-** एक रुपया के करेंसी नोट के मुद्रण का मानक कागज भार और अनुज्ञात उपचार (सह्यता) नीचे की सारणी में यथाविनिर्दिष्ट होगा:-

सारणी

अंकित मूल्य	प्राचल	मानक भार	अनुज्ञात उपचार (सह्यता)
(1)	(2)	(3)	(4)
एक रुपया	प्रयुक्त कागज का ग्राम भार	90 जीएसएम (ग्राम प्रति वर्ग मीटर)	+/-3 जीएसएम
	कागज की मोटाई	110 माइक्रॉस	+/- 5 माइक्रॉस

[फा. सं.01/04/2015-सिक्का-II]

पंकज गुप्ता, अवर सचिव (एसपीएमसी और सिक्का)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2016

G.S.R. 192(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) and clause (e) of sub-section (2) of Section 24 of the coinage Act, 2011(11 of 2011) the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called The Printing of One Rupee Currency Notes Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Printing:- The One Rupee Currency Notes shall be printed at the note printing presses for issue under the authority of the Government of India for circulation.

3. Dimensions and compositions of One Rupee Currency Note.- The One Rupee Currency Notes shall conform to the dimensions and composition as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Denomination of Note	Shape and Size	Paper Composition
(1)	(2)	(3)
One Rupee Currency Note	Rectangular 9.7 x 6.3 cms	100 per cent. (Cotton) Rag Content.
		Weight of Paper:- 90 GSM (Grams per Square Meter)
		Thickness of Paper:- 110 microns

		Multi tonal Watermarks:- (i) Ashoka Pillar in the window without words 'सत्यमेव जयते' (ii) Hidden Numeral '1' in the centre (iii) Hidden Word 'भारत' vertically arranged on right hand side.
--	--	---

4. Design:-The design of One Rupee Currency Notes shall be as under :-

(1) Obverse:-

- (a) It contains the words 'भारत सरकार' above the words "Government of India" with the bilingual signature of Shri. Ratan P. Watal, Finance Secretary and with the replica of New Rupee One coin with '₹' symbol of 2016 issued with 'सत्यमेव जयते' and capital inset letter 'L' in numbering panel.
- (b) The numbering shall be in black at right hand bottom portion of the Note.

(2) Reverse: - It contains the words 'भारत सरकार' above the words "Government of India" with the year 2016 on the representation of the One Rupee coin with '₹' symbol having floral design and the surrounding design consists of picture of 'SagarSamrat' the oil exploration platform and with the authentic rendering of value in fifteen Indian languages in language panel with the year figure shown on the centre bottom in international number.

(3) Overall Colour Scheme: - The colour of One Rupee Currency Note shall be predominantly pink green on observe and reverse in combination with others.

5. Standard weight and remedy allowed: - The standard paper weight and remedy (tolerance) allowed in printing of One Rupee Currency Notes shall be as specified in the Table below:-

TABLE

Denomination	Parameter	Standard weight	Remedy (Tolerance) allowed
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupee One	Grammage of Paper Used	90 GSM (Grams per Square Meter)	+/- 3 GSM
	Thickness of Paper	110 Microns	+/- 5 Microns

[F. No. 01/04/2015-Coin]

PANKAJ GUPTA, Under Secy. (SPMC & Coin)